



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 2009/माघ 29, 1930

No. 3]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2009/MAGHA 29, 1930

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा चिकित्सा)

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2009

का.नि.आ. 3(अ).—निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1966 के अधिनियम 4 के साथ पठित निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खण्ड (पी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा सशस्त्र सेना अस्पतालों के माध्यम से सशस्त्र सेना सेवा कार्मिकों और उनके हकदार आश्रितों; भूतपूर्व सैनिकों और उनके हकदार आश्रितों को निशक्तता के मूल्यांकन एवं प्रमाणन के प्रयोजन के लिए चिकित्सा बोर्डों का गठन करती है :—

1. विचार की जाने वाली निशक्तताएं

- (क) मानसिक मन्दन
- (ख) दृष्टि निशक्तताएं
- (ग) वाक एवं श्रवण निशक्तताएं
- (घ) गति-विषयक निशक्तताएं और
- (ङ) बहुल निशक्तताएं

2. चिकित्सा बोर्ड की संरचना

- (क) पीठासीन अधिकारी : कर्नल के रैंक के
- (ख) तीन सदस्य, जिनमें से कम से कम एक जारी किए जाने वाले निशक्तता प्रमाण-पत्र के संबंधित विशेषज्ञता का होना चाहिए।

3. निशक्तता चिकित्सा बोर्ड के लिए मार्गनिर्देश

- (i) निशक्तता प्रमाण-पत्र के लिए इच्छुक व्यक्ति/उसके निकट संबंधी मरीज के संगत ब्यौरे देते हुए एक आवेदन-पत्र एक साफ कागज में प्रस्तुत करेगा।
- (ii) निशक्तता प्रमाण-पत्र के लिए इच्छुक व्यक्ति, निर्दिष्ट सेवा अस्पतालों में स्वयं उपस्थित होगा।
- (iii) निम्नलिखित सशस्त्र सेना अस्पतालों द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

सेना अस्पताल

सेना अस्पताल (आर एंड आर) नई दिल्ली

कमान अस्पताल, दक्षिण कमान

कमान अस्पताल, पूर्वी कमान

कमान अस्पताल, पश्चिमी कमान

कमान अस्पताल, उत्तरी कमान

कमान अस्पताल, मध्य कमान

बेस अस्पताल, दिल्ली छावनी

बेस अस्पताल, बैरकपुर

155 बेस अस्पताल

158 बेस अस्पताल

92 बेस अस्पताल

151 बेस अस्पताल

सैनिक अस्पताल, किरकी

सैनिक अस्पताल, अम्बाला

सैनिक अस्पताल, आगरा
 सैनिक अस्पताल, जालंधर
 सैनिक अस्पताल, मेरठ
 सैनिक अस्पताल, देहरादून
 सैनिक अस्पताल, बरेली
 सैनिक अस्पताल, रुड़की
 सैनिक अस्पताल, झांसी
 सैनिक अस्पताल, इलाहाबाद
 सैनिक अस्पताल, सिकन्दराबाद
 सैनिक अस्पताल, जबलपुर
 सैनिक अस्पताल, नामकुम
 सैनिक अस्पताल, जोधपुर
 सैनिक अस्पताल, अहमदाबाद
 150 सामान्य अस्पताल
 159 सामान्य अस्पताल
 166 सैनिक अस्पताल
 167 सैनिक अस्पताल

नौसेना अस्पताल

भारतीय नौसेना अस्पताल पोत अश्विनी
 भारतीय नौसेना अस्पताल पोत कल्याणी
 भारतीय नौसेना अस्पताल पोत संजीवनी

वायुसेना अस्पताल

कमान अस्पताल (वायुसेना) बंगलूर
 5 वायुसेना अस्पताल
 7 वायुसेना अस्पताल
 9 वायुसेना अस्पताल
 11 वायुसेना अस्पताल

- (iv) कमांडेंट या कमान अफसर, सशस्त्र सेना अस्पताल से एक आदेश द्वारा गठित चिकित्सा बोर्डों के माध्यम से निशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया होगी।
- (v) निशक्तता का प्रतिशत, दिनांक 1 जून, 2001 को भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 16-18/97 एन आई. 1 में जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा। प्रमाण-पत्र का आरूप उपर्यक्त अधिसूचना के संलग्नक-ख के अनुसार होगा।
- (vi) प्रमाण-पत्र सेना अस्पताल के कमांडेंट या स्थानापन्न कमांडेंट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- (vii) निशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए गठित चिकित्सा बोर्ड, निर्मुक्ति चिकित्सा बोर्ड अथवा प्रयोजन अभिन्नकरण के लिए गठित चिकित्सा बोर्ड से भिन्न होंगे।

[फा. सं. 6(118)/07/रक्षा (चिकित्सा)]

बिनय कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Defence Medical)

New Delhi, the 18th February, 2009

S.R.O. 3(E).—In exercise of powers conferred by clause (p) of Section 2 of Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 read with rule 4 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1996 the Central Government hereby constitutes medical boards for the purpose of evaluations and certification of disability to Armed Forces Service Personnel and their entitled dependents; Ex-Servicemen and their entitled dependents through the Armed Forces Hospitals. Details are as follows :—

1. Disabilities to be considered

- Mental Retardation
- Visual Disabilities
- Speech and Hearing Disabilities
- Locomotor Disabilities, and
- Multiple Disabilities.

2. Structure of Medical Board

- Presiding Officer of the rank of Colonel
- Three members, at least one of them will be of the concerned specialty for which disabilities certificate is being issued.

3. Guidelines for Disability Medical Boards

- The individual or Next of Kin seeking disability certificate will submit an application on a plain paper giving relevant details of the patient.
- The individual for whom the disability certificate is being sought will appear in person at the designated service hospitals.
- The certificate will be issued by following Armed Forces Hospitals :—

ARMY HOSPITALS

Army Hospitals (R & R), Delhi Cantt.

Command Hospital (Southern Command),
Pin-900449, C/o-56 APO

Command Hospital (Eastern Command),
Pin-900285, C/o-99 APO

Command Hospital (Western Command),
Pin-900475, C/o-56 APO

Command Hospital (Northern Command),
Pin-901131, C/o-56 APO

Command Hospital (Central Command),
Pin-900450, C/o-56 APO

Base Hospital, Delhi Cantt

Base Hospital, Barrackpore

155 Base Hospital

158 Base Hospital

92 Base Hospital

151 Base Hospital

Military Hospital, Kirkee

Military Hospital, Ambala

Military Hospital, Agra

Military Hospital, Jalandhar

Military Hospital, Meerut

Military Hospital, Dehradun

Military Hospital, Bareilly

Military Hospital, Roorkee

Military Hospital, Jhansi

Military Hospital, Allahabad

Military Hospital, Secunderabad

Military Hospital, Jabalpur

Military Hospital, Namkum

Military Hospital, Jodhpur

Military Hospital, Ahmedabad

150 General Hospital

159 General Hospital

166 Military Hospital

167 Military Hospital

NAVAL HOSPITALS

Indian Naval Hospital Ship, Asvini

Indian Naval Hospital Ship, Kalyani

Indian Naval Hospital Ship, Sanjivani

AIR FORCE HOSPITALS

Command Hospital (Air Force) Bangalore

5 Air Force Hospital

7 Air Force Hospital

9 Air Force Hospital

11 Air Force Hospital

- (iv) The process of issue of disability certificate will be through medical board constituted by an order from Commandant or Commanding Officer Armed Forces Hospital.
- (v) Percentage of disablement will be as per guidelines issued in the Notification in the Ministry of Social Justice and Empowerment *vide* No. 16-18/97-NI. 1, published in Gazette of India, Part I, Section 1, dated 1st June, 2001. The format of the certificate will be as per Annexure B of the said Notification.
- (vi) The certificate will be signed by Commandant or Officiating Commandant of service hospitals.
- (vii) The medical board constituted for issue of disability certificate will be different from medical board constituted for Release Medical Board or Invaliding Medical Board purpose.

[F. No. 6(118)/07/D(Med.)]

BINOY KUMAR, Jt. Secy.